

कार्यालय,
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या १५१५७ / जी-६६ / २०१८-१९ / अधि०

दिनांक : १५ जनवरी, २०१९

विज्ञाप्ति

उत्तराखण्ड शासन चिकित्सा अनुभाग-१ की अधिसूचना संख्या 1047/चि०-१ 2009-९०/२००७ दिनांक १९ अगस्त, २००९ द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) सेवा नियमावली २००९ एवं उत्तराखण्ड शासन आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग की अधिसूचना संख्या-1125/XXXX/2010-९०/२०१० दिनांक २५ नवम्बर, २०१० द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) (संशोधन) सेवा नियमावली २०१० में निहित प्राविधानों के अनुसार राज्य के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक भैषजिक (फार्मेसिस्ट) के (वेतन मैट्रिक्स लेबल-६ वेतनमान रु० ३५४००.००-११२४००.००) रिक्त ३२ पदों पर निम्नानुसार नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निम्न निर्धारित प्रारूप पर आमंत्रित किये जाते हैं, पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है—

आयुर्वेदिक भैषजिक (फार्मेसिस्ट) के रिक्त पदों का विवरण :-

विज्ञापित पदों की संख्या एवं विवरण	क्षैतिज आरक्षण				कुल क्षैतिज आरक्षण	ओपन कैटगिरी
	महिला (३० प्रतिशत)	विकलांग ओ०ए०,ओ०ए०ल०श्रेणी (०५ प्रतिशत)	भूतपूर्व सैनिक (०५ प्रतिशत)	स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी के आश्रित (०२ प्रतिशत)		
सामान्य-३२	१०	०२	०२	०१	१५	१७
अनु० जाति-शून्य	०	०	०	०	०	०
अनु० जन जाति-शून्य	०	०	०	०	०	०
अन्य पिछड़ा वर्ग-शून्य	०	०	०	०	०	०
योग-३२	१०	०२	०२	०१	१५	१७

(1) आरक्षण— उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(2) अर्हतायें :-

(अनिवार्य अर्हतायें)

- (क) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से विज्ञान वर्ग में (बाइलोजी म्यू) परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- (ख) उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेदिक या यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) का दो वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किया हो और भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो।

(अधिमानी अर्हताएं)

- (i) प्रादेशिक सेवा में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो या
- (ii) नेशनल कैडिट कोर का “बी” प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या
- (iii) राष्ट्रीय सेवायोजन का “सी” प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

(3) उत्तराखण्ड राज्य में किसी सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण होना आवश्यक है।

(4) आयु :- दिनांक ०१ जुलाई २०१९ को अभ्यर्थी की आयु १८ वर्ष से कम तथा ४२ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये, को शासकीय नियमों के अनुसार अधिकतम् आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी।

- (5) शुल्क :— आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थीयों को ₹0 150/- का बैंक चालान लेखाशीर्षक 02210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 01—शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 800—अन्य प्राप्तियां, 10—अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियां आयुर्वेदिक के शीर्षक में जमा होगा, आवेदन पत्र के साथ चालान की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। बिना बैंक चालान के आवेदन प्राप्त होने पर निरस्त कर दिया जायेगा।
- (6) चयन प्रक्रिया :— शासन द्वारा निर्गत, "उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी ऐषजिक (फार्मेसिस्ट) सेवा नियमावली 2009" एवं उत्तराखण्ड शासन आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग की अधिसूचना संख्या—1125/XXXX/2010—90/2010 दिनांक 25 नवम्बर, 2010 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी ऐषजिक (फार्मेसिस्ट) (संशोधन) सेवा नियमावली 2010 में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार चयन, डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष वार योग्यता क्रम (मैरिट) के अनुसार चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा।
- (7) आवेदन पत्र जमा करने की तिथि :— निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन पत्र "निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड, डाप्डा लखौण्ड, सहस्रधारा रोड, निकट आईटी पार्क, देहरादून" के कार्यालय में दिनांक 11 फरवरी, 2019 को सायं 5:00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा। आवेदन हेतु फिलाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखा होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् डाक वितरण में विलम्ब या किसी कारण से विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (8) अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण—पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियां निम्न क्रम के अनुसार संलग्न करना भी अनिवार्य है—
1. आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण—पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत)।
 2. हाई—स्कूल/इण्टरमीडिएट प्रमाण—पत्र एवं अंक—तालिका।
 3. ऐषजिक (फार्मेसिस्ट) प्रशिक्षण का प्रमाण—पत्र एवं अंक—तालिका।
 4. भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड में पंजीकरण प्रमाण—पत्र।
 5. मूल—निवास/स्थाई निवास प्रमाण—पत्र।
 6. उत्तराखण्ड राज्य के रोजगार/सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण प्रमाण—पत्र।
 7. चरित्र प्रमाण—पत्र—2 (राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त)।
 8. निर्धारित शुल्क बैंक चालान मूल रूप में।
 9. स्वयं पता लिखा 23X10 सेमी० के दो लिफाफे जिनमें पंजीकृत डाक टिकट लगे हों।
 10. अन्य योग्यता सम्बन्धी प्रमाण—पत्र, यदि कोई हो।

(डा०) अरुण कुमार त्रिपाठी)
निदेशक *lep*

स्व-हस्ताक्षरित
पासपोर्ट साइज
फोटो

आवेदन पत्र का प्रारूप निम्नवत् है :-

आवेदन पत्र का प्रारूप

(आवेदित पद का नामआरक्षण / क्षेत्रिज आरक्षण का विवरण)

(भैषजिक (फार्मेसिस्ट) परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष

1. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में)
2. अभ्यर्थी का नाम (अंग्रेजी के कैपिटल लैटर्स में)
3. पिता/पति का नाम
4. जन्म तिथि (अंकों में)

दिनांक 01.07.2017 को आयुवर्ष.....माह.....दिन.....

5. पत्राचार का पता
-
-

6. स्थाई पता
-

दूरभाष(मो०) संख्या.....

7. श्रेणी का नाम:-.....
8. क्षेत्रिज आरक्षण की स्थिति (महिला/स्व०संग्राम सौ० के आश्रित/विकलांग/भू०पू०सौ०)
9. बैंक चालान संख्या.....दिनांक.....धनराशि रु०.....बैंक का नाम.....
10. शैक्षिक योग्यता का विवरण:-

क्रमांक	शैक्षिक योग्यता	बोर्ड का नाम	संस्था का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

11. भैषजिक (फार्मेसिस्ट) प्रशिक्षण योग्यता का विवरण—

क्रमांक	व्यवसायिक योग्यता	बोर्ड का नाम	संस्था का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष/माह	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	पूरक परीक्षा में पास करने का माह/वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8

12. हाउस-जॉब/इण्टर्नेशिप की अवधि से तक चिकित्सालय का नाम
13. भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड में पंजीकरण संख्या
14. सेवायोजन कार्यालय का नाम.....पंजीकरण संख्यावैधता अवधि.....

-2-घोषणा

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गयी सभी जानकारी सही एवं सत्य है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि इसमें कुछ असत्य पाया जाता है तो मेरा अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाये। इस हेतु मैं किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूँगा। विभाग मेरे अभ्यर्थन को निरस्त करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

स्थान

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक

संलग्नकों की संख्या—

1. जाति प्रमाण—पत्र।
2. जन्म तिथि प्रमाण पत्र।
3. मूल निवास प्रमाण पत्र।
4. शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र एवं अंक—तालिका।
5. भैषजिक (फार्मसिस्ट) प्रशिक्षण योग्यता का प्रमाण—पत्र एवं अंक—तालिका।
6. भारतीय चिकित्सा उत्तराखण्ड का पंजीकरण प्रमाण—पत्र एवं इंटर्नशिप प्रमाण पत्र।
7. सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण प्रमाण—पत्र।
8. स्वयं पता लिखा 23X10 सेमी० के दो लिफाफे जिनमें प्रत्येक में रु० 40.00 के डाक टिकट लगे हों।
9. चरित्र प्रमाण—पत्र—2 (राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त)।
10. अनुभव प्रमाण—पत्र, यदि कोई हो।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर व नाम